



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 28.03.2021

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा तीन अभियुक्त व एक बाल अपचारी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मो0सा0, एक अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 27.03.2021 थाना फेस 3 पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों 1. आकाश पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम रामपुर थाना रामघाट जिला बुलन्दशहर 2. सिनोद पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम व थाना संडीला जिला हरदोई वर्तमान पता राहुल भाटी का मकान देवला सूरजपुर 3. सोनू पुत्र पातीराम निवासी ग्राम कटका थाना बरहन जिला आगरा वर्तमान पता राम सिंह नागर का मकान पुलिस चौकी के पीछे सूरजपुर गौतमबुद्धनगर व एक बाल अपचारी को एस.जे.एम. कट छिजारसी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक चाकू, चोरी की 03 चोरी की मो0सा0 बरामद की गयी है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1.मु0अ0स0 262/21 धारा 411/414 भादवि व मु0अ0स0 263/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 120/21 धारा 379 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 888/20 धारा 379 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तों का विवरण-

1. आकाश पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम रामपुर थाना रामघाट जिला बुलन्दशहर
2. सिनोद पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम व थाना संडीला जिला हरदोई वर्तमान पता राहुल भाटी का मकान देवला सूरजपुर

3. सोनू पुत्र पातीराम निवासी ग्राम कटका थाना बरहन जिला आगरा वर्तमान पता राम सिंह नागर का मकान पुलिस चौकी के पीछे सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर

4. 01 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

1.0 3 मो0सा0 क्रमशः 1. सीडी डीलक्स 2. स्पेलण्डर प्लस रंग काला 3. स्पेलण्डर प्लस (चोरी की)

2. एक अवैध चाकू बरामद

2- थाना दादरी पुलिस पुलिस द्वारा 01 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 368 पव्वे अवैध शराब व 800 रूपये बरामद।

दिनांक 28-03-2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 अवैध शराब विक्रेता कपिल पुत्र देशराज निवासी ग्राम बढपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को पाकिस्तानी वाली गली मौ0 गौतमपुरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 368 पव्वे हरियाणा मार्का अग्रेजी शराब व 800 रूपये बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण-

कपिल पुत्र देशराज निवासी ग्राम बढपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 171/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 368 पव्वे हरियाणा मार्का

2. 800 रूपये

3- थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा फरवरी माह में ब्रिक्स (कैश सोलूशन) नामक कम्पनी में हुयी गार्ड की हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त मय घटना में प्रयुक्त अवैध रिवाल्वर 32 बोर मय 3 कारतूस जिंदा सहित गिरफ्तार।

थाना क्षेत्र सेक्टर 20 के अंतर्गत फरवरी माह में ब्रिक्स नामक कम्पनी में गार्ड की हत्या की घटना हुयी

थी जिसके सम्बंध में थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना मे वांछित अभियुक्त को दिनांक 27.03.2021 को कम्पनी के पूर्व कर्मचारी अभियुक्त अरुण गहलोत पुत्र जिले सिंह निवासी 331 मित्ररांव थाना बाबा हरिदास नजफगढ दिल्ली को रजनीगंधा अंडर पास से गिरफ्तार किया गया है ।अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध रिवाल्वर 32 बोर मय 3 कारतूस जिंदा बरामद हुए है ।

अपराध का घटनाक्रम-

गिरफ्तार अभियुक्त अरुण गहलोत पुत्र जिले सिंह निवासी 331 मित्ररांव थाना बाबा हरिदास नजफगढ दिल्ली सन् 2003 में सीआरपीएफ में बतौर सब इंस्पैक्टर भर्ती हुआ, 2014 में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट त्यागपत्र देकर विभिन्न कंपनियों में सुरक्षा हैड के तौर पर काम करने लगा, सन् 2018 में ब्रिंक नामक केश सोलूशन प्रोवाइडर कम्पनी में बतौर रीजनल सिक््योरिटी मैनेजर सितम्बर 2020 तक काम किया कम्पनी द्वारा कोविड के मद्देनजर छटनीं के दौरान अभियुक्त उपरोक्त को नौकरी से निकाल दिया जिसका अभियुक्त अरुण को काफी आघात लगा क्योंकि कम्पनी में काम के दौरान अरुण द्वारा कम्पनी को काफी आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था इसी बात से परेशान अभियुक्त अरुण द्वारा साजिश रची गयी कि कम्पनी को जो फायदा उसकी वजह से हुआ है उसकी चोरी वह कम्पनी से हथियार के बल पर करेगा क्योंकि कम्पनी की सिक््योरिटी के बारे में अभियुक्त अरुण को अच्छी तरह से पता था और वह दिनांक 08-02-2021 की रात को अपने घर दिल्ली से किराये के आटो से आया और कम्पनी में घुसने के ही दौरान कम्पनी के सिक््योरटी गार्ड के द्वारा पहचाने जाने के कारण अभियुक्त अरुण ने पकडे जाने के भय से गोली मार दी जिससे गार्ड उत्तम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी।

अभियुक्त का विवरण-

अरुण गहलोत पुत्र श्री जिले सिंह निवासी 331 मित्ररांव थाना बाबा हरीदास नजफगढ दिल्ली

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 109/21 धारा 302 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक रिवाल्वर 32 बोर
2. 3 कारतूस जिंदा 32 बोर